

आप सभी को नमस्कार व गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. मैं _____ सबसे पहले आप लोगों को हमारे साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा. आज 26 जनवरी को हम भारत के 73वा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं.

जैसा की आप सभी जानते हैं कि यह एक राष्ट्रीय त्यौहार हैं और हम सभी एक भारतीय होने के नाते इसे मनाते हैं. अन्य धार्मिक उत्सवों की तरह राष्ट्रीय उत्सवों का भी अपना महत्व होता है | आज के दिन 1950 भारत को अपना सविधान मिला था और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष २६ जनवरी को गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है |

यह तो सभी को ज्ञात है कि पहले हमारा देश पराधीन था और यहाँ अंग्रेजों(British) का राज था. गुलामी के समय हम लोगों को अंग्रेजों के कानून नियम व कायदे मानने होते थे. भारतीयों को अंग्रेज हेय द्रष्टि से देखते थे. भारतीयों को अपने ही देश में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था. अंग्रेज भारतीयों पर अनेक प्रकार से अत्याचार करते थे | जिसके फलस्वरूप देश के युवा, बुद्धिजीवी व आम जन मानस ने स्वतंत्रता के लिए संग्राम शुरू कर दिया |

अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और उसके ढाई साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना. यह दिन इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले भारतीय अंग्रेजों के बनाये हुए कानून को मानने के लिए विवश थे.

गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों को अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार, जोकि भारतीय सविधान के अनुसार भारत की जनता के पास हैं.

भारत के सविधान में] सभी नागरिकों के मूल कर्तव्यों, नियम और कानून का उल्लेख है. भारत में विविधता में एकता दिखाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बड़ा प्रदर्शन इस दिन किया जाता है. गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन देश के लोगों को सुरक्षित होने का आश्वासन देता हैं.

अंत में इस भाषण को समाप्त करने से पहले, मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ व आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई भी देना चाहता हूँ.